



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26122023-250896
CG-DL-E-26122023-250896

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5217]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 22, 2023/पौष 1, 1945

No. 5217]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 22, 2023/PAUSHA 1, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2023

का.आ. 5447(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.का.आ. 4034(अ). तारीख 12.09.2023, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में NH548D के कि.मी. 177.750 से कि.मी.195.375 (उपविभागीय अधिकारी, कर्जत-जामखेड विभाग, कर्जत) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख"05.10.2023"को"सार्वमत नगर"और"देशदुत टाईम्स"दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटान किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में NH548D के कि.मी. 177.75 से कि.मी.195.375 (उपविभागीय अधिकारी, कर्जत-जामखेड विभाग, कर्जत)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: अहमदनगर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: जामखेड					
गांव का नाम: पाटोदा					
1	361	निजी (कृषी)	कृषी	0.0768	जमीर उमराव सय्यद, मुन्शी उमराव सय्यद, आजाफ रफियोद्दीन शेख, शहानुर अहेमद शेख, शाहेदा निजाम पठाण, हानिफा अन्वर पठाण, रशिदा बशीर शेख.
गांव का नाम: जामखेड (सटी)					
2	786	निजी (कृषी)	कृषी	0.0404	राघूबाबू म्हेत्रे, बाबा रंगनाथ म्हेत्रे, आण्णारंगनाथ म्हेत्रे, एकनाथ रघुनाथम्हेत्रे, लिलाबाई प्रभु जाधव, मालन ज्ञानदेव शिंदे, रुक्मिण सखाराम भुजबळ, कोंडाबाई रघुनाथ भुजबळ, कैलास भानुदास म्हेत्रे, लता विश्वास जाधव, मंदाउद्धव मोहोळकर, वैशाली राजुमोहोळकर, सुमन भानुदास म्हेत्रे, संभाजीश्रीपती म्हेत्रे, प्रकाश प्रभू म्हेत्रे, अशोक प्रभू म्हेत्रे, शबनम अताऊल्लाखान पठाण, असिफ अताऊल्लाखान पठाण, इरफान अताऊल्लाखान पठाण, इब्राहीम अताऊल्लाखान पठाण, रिजवाना अताऊल्लाखान पठाण, समिना अताऊल्लाखान पठाण.
कुल योग				0.1172	

[फा. सं. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3D]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd December, 2023

S.O. 5447(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 4034(E). Dated:12/09/2023**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH548D in the stretch of land from Km. 177.750 to Km. 195.375 (Sub Divisional Office, Karjat Jamkhed Division) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Sarvmat Nagar**” and “**deshduth times**” both dated **05.10.2023**; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH548D in the stretch of land from Km. 177.750 to Km. 195.375 (Sub Divisional Office, Karjat Jamkhed Division,) in the district of AHMEDNAGAR in the state of MAHARASHTRA

State: MAHARASHTRA			District: AHMEDNAGAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Jamkhed					
Village: Patoda					
1	361	Private (Agreeculture)	Agriculture	0.0768	Jamir Umrao Syiad, Munshi Umrao Syiad, AzafRafiuddin Sheikh, Shahanur Ahmed Sheikh, Shaheda Nizam Pathan, Hanifa Anwar Pathan, Rashida Basheer Shaikh.
Village: Jamkhed (CT)					
2	786	Private (Agreeculture)	Agriculture	0.0404	Raghu Babu Mhetre, Baba Ranganath Mhetre, Anna Ranganath Mhetre, Eknath Raghunath Mhetre, Lilabai Prabhu Jadhav, Malan Dyandev Shinde, Rukmin Sakharam Bhujbal, Kondabai Raghunath Bhujbal, Kailas BhanudasMhetre, Lata Vishwas Jadhav, Manda UddhavMoholkar, Vaishali Raju Moholkar, Suman Bhanudas Mhetre Sambhaji Shripati Mhetre, Prakash Prabhu Mhetre, Ashok Prabhu Mhetre, Shabnam Ataullah Khan Pathan, Asif Ataullah Khan

					Pathan, Irfan Ataullah Khan Pathan, Ibrahim Ataullah Khan Pathan, Rizwana Ataullah Khan Pathan, Samina Ataullah Khan Pathan.
Total				0.1172	

[F. No. RO/MUM/12014/02/2020-21-MAH(Z-4)/3D]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.